

'आप' ने फूँका चुनावी बिगुल, पीएम प्रत्याशी लोकसभा के नतीजों के बाद होगा तय

By : INVC Team Published On : 4 Jan, 2014 06:57 PM IST

✖ आई एन वी सी, दिल्ली, दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाली और जबर्दस्त एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी ने आखिरकार लोकसभा चुनाव का बिगुल फूँक ही दिया है। पार्टी ने शनिवार को साफ कर दिया कि वह लोकसभा की अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने की चर्चाओं को ठंडा करते हुए पार्टी ने कहा कि पीएम उम्मीदवार पर फैसला चुनाव नतीजों के बाद किया जाएगा। शनिवार सुबह आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सभी राज्यों में अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। पार्टी नेता संजय सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एक महीने के अंदर सभी राज्यों में लोकसभा सीट के उम्मीदवार पर पार्टी चर्चा करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल को पार्टी का सबसे बड़ा नेता जरूर बताया, लेकिन साथ ही कहा कि पीएम उम्मीदवार पर फैसला चुनाव के नतीजों के बाद होगा। उन्होंने कहा, 'पीएम कौन होगा या नहीं होगा, यह पार्टी के लिए अभी अहमियत नहीं रखता। केजरीवाल आप के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।' आप की इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने से पहले पार्टी नेता योगेंद्र यादव ने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच होने वाले मुकाबले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि देश की आम जनता को अन्य विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। योगेंद्र यादव ने कहा, उनका सपना है कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनें। साथ ही कुमार विश्वास को अमेठी से लोकसभा प्रत्याशी बनाये संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले पर पार्टी की ओर से अभी कोई अधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/आप-ने-फूँका-चुनावी-बिगुल-प/>